

August 17, 2024

National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex Bandra [E], Mumbai – 400051	BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
NSE Scrip Symbol: BLSE	BSE Scrip Code: 544107

#### Subject: Public Notice for completion of dispatch of Notice of 8th (1st Post IPO) Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir/ Ma'am

Pursuant to Rule 20 (4) (v) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has published public notice as advertisement in Newspapers viz. The Financial Express (in English language with all edition) and in Jansatta (in Hindi language with Delhi Edition) confirming inter-alia:

- 1. Completion of dispatch of Notice of 8th (1st Post IPO) Annual General Meeting (The AGM) through e-mail on August 16, 2024, to all the members whose e-mail IDs are registered with RTA and Depositories i.e. NSDL and CDSL as on record date Friday, August 09, 2024.
- 2. Relevant date for voting through electronic means and e-voting information;
- 3. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the electronic voting etc.

In compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of public notice(s) published in aforesaid newspapers today i.e. August 17, 2024.

The said public notice in newspapers will be uploaded on the website of the Company at http://www.blseservices.com

Kindly take the same on record.

For BLS E-Services Limited

Sameer Kumar **Company Secretary and Compliance Officer** ICSI Membership No.: ACS32216

Encl: as above

......

# Bangla crisis & Indian textiles industry

A decline in the garment

exports of Bangladesh, whether

temporarily as at present or

even on long term basis, need

not automatically lead to an

increase in our exports. There

are factors that can hamper our

ability to absorb the spill over

orders of Bangladesh. The tough

competition from Vietnam is

perhaps the most important

among these especially in the

USA, the world's largest sizgle

market for garments, and in

Canada. Currently, Vigenam's

exports of garments to the USA

alone are larger that our lobal

garment exports. Though the

US market for textiles and gar-

ments has not been growing

much for some time now and

currently most of their major

puts on hold

order barring

dealings with

SBI and PNB

PRESS TRUST OF INDIA

THE KARNATAKA GOVERN-

**MENT** on Friday kept its circu-

lar in abeyance for 15 days,

which prohibited all business

transactions with the State

Bank of India (SBI) and the

The decision came after

A government circular

Punjab National Bank (PNB).

chief minister Siddaramaiah

considered the two banks'

issued on August 12 ordered all

its departments, boards, cor-

porations, public sector units

and universities to withdraw

all their deposits and invest-

ments in the SBI and the PNB

and stop transacting any busi-

ness with these institutions.

banks' requests, the Honorable

chief minister has directed

officials of the finance depart-

ment to keep the circular in

abeyance for 15 days," the state

vious circular on hold "will

allow the banks sufficient

time to address the issues and

redress the concerns of the

government."The government

is committed to en uring

transparency and account-

ability in all its dealings, said

the statement.

(₹ In Crores)

Year Ended

(Audited)

0.39

-11.66

-11.66

-9.17

0.31

30.25

-230.59

Quarter Ended

Reviewed

0.28

-2.98

-2.98

-0.49

9.05

30.25

-241.70

-0.18

-0.18

30/06/2024 | 31/03/2024 | 30/06/2023 | 31/03/2024

(Un-Audited) (Un-Audited)

Reviewed

0.01

-1.45

-1.45

-1.45

-1.47

30.25

It said that putting the pre-

government said in a release.

"After considering the

requests.

Bengaluru, August 16

Karnataka



DK NAIR

THE CURRENT TURMOIL in Bangladesh is likely to have a significant impact on the Indian textiles industry, temporarily. How long the impact will last depends on how early the political situation in Bangladesh stabilises and the confidence of their global trade partners revives. Even after the situation stabilises, their business partners, especially global buyers, are bound to be sceptical for some time since their stakes are very high.

Currently, Bangladesh is an important and growing market for India's fibre, yarn and fabrics, especially of cotton and manmade fibres. Though the garment industry in most parts of Bangladesh has resumed production, it will take some time for them to achieve normal production levels and that is likely to disrupt our textiles exports for some time.

The garment industry of India can look forward to some positive impact in the global markets, from the current turmoil in Bangladesh. The annual exports of garments from Bangladesh is over three times that ofIndia. And our garment exports have been stagnating during the last several years. in Bangladesh.

Above-normal rainfall

consistently boosted

water levels in the

country's 50 major

reservoirs for seven

consecutive weeks.

reports Sandip Das.

For the second week in

a row, water levels in

these reservoirs have

remained higher than

last year's levels. On

Thursday, the water

levels were up 11% on

year, compared with

6% y-o-y a week ago.

Currently, water levels

are 14% above the ten-

year average. As per

Commission (CWC)'s

reservoir capacity is

now filled to 69%, up

from 65% the previous

East

**Particulars** 

Total income from operations (Net)

Net Profit / (Loss) for the period (before

Tax, Exceptional and/or Extraordinary items

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

and Other Comprehensive Income (after tax)

Earning per share (before extraordinary items)

Earning per share (after extraordinary items)

Equity Share Capital

classifications.

Date: 14.08.2024

Place: Parwanoo

of Rs. 2/-each) Basic & Diluted

(of Rs. 2/-each) Basic & Diluted

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year

Total Comprehensive Income for the period

Net Profit / (Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax

Source: CWC, as on Aug 8, 2024

Water levels at reservoirs (% change)

the Central Water

weekly bulletin,

since July has

Major reservoirs at

69% of capacity



After achieving a level of over These have helped them to \$16 billion ten years ago, these attract investments from India are now hovering around \$15 and other countries in their billion. On the other hand, garment industry. Garment production is perhaps the most Bangladesh is now the second largest exporter of garments labour intensive industry globglobally and is expected to ally and therefore lower wages retain that position for quite and flexible labour laws are important factors for the some time. investor.

In fact, Indian exporters were the pioneers in setting up the garment industry of Bangladesh in the 1980s. At that time, it was the quota restrictions imposed on our textile exports by North America and West Europe, more than anything else, that drove some entrepreneurs to establish garment factories in Bangladesh. But after quotas were abolished in 2005, a new wave of Indian investments flowed to Bangladesh because of the cost advantages there. Even after some increases in recent years, wages in Bangladesh are just over half of ours. Labour laws, including the working hours in factories, are significantly more flexible

week. In the southern

(42 dams) and eastern

(23 dams) regions.

reservoir levels are

year, thanks to

26% and 15% higher,

adequate monsoon

southern states are

capacity, up from 77%

a week ago. Earlier this

year, reservoir levels

had dropped for 36

consecutive weeks

until June 26.

From last year

Central South

STURDY INDUSTRIES LIMITED (undergoing CIRP)

CIN: L25209HP1989PLC009557

Regd. Office : Plot N. 57, Industrial Area, Sector 1, Parwanoo, Solan, Himachal Pradesh-173220

Website: www.sturdyindustries.in | Email Id: legalsturdy@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2024

1. The above Financial Results of Sturdy Industries Limited (undergoing CIRP w.e.f. 06.06.2024 as per orders

passed by Hon'ble NCLT in the petition filed u/s 7 of IBC, 2016) for the guarter ended on 30/06/2024 along with the

Limited Review Report by the auditors have been reviewed and approved at a meeting held on 14/08/2024 by the

Resolution Professional with the suspended Board of Directors (power suspended) of the company through video

. The above is an extract of detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under

regulations 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the

website of Bombay Stock Exchange and company's website (www.sturdyindustries.in)

Against 10 year-average

(Un-Audited)

Reviewed

-0.24

-0.24

-0.24

-0.24

30.25

rains. Dams in the

currently at 79%

respectively, than last

suppliers are facing a negative growth, Vietnam continues to do relatively well. So, the US orders shifting out

of Bangladesh have a better chance to land up in Vietnam than in India. That Vietnam has production facilities as efficient as those of Bangladesh is an additional hindrance for the orders to shift to India. This is especially relevant for the large orders, since scale is a major issue for our garment industry, though we do have a few large units. But the substantially larger and fully integrated textiles sector that we have should be able to help in countering some of these disadvantages at least partly.

In EU, the real issue is the zero duty access that Bangladesh has there, as a least developed country (LDC). Once India's long-drawn negotiations with EU, and now separately with the UK, for a comprehensive bilateral agreement on trade and investment gets finalised, this disparity will hopefully go. For the textiles sector, even a limited free trade area (FTA) agreement will also serve ne pur ose. It is widely believed that, for a long time now, there

has been a mutual understanding between the two sides to allow all textile products dutyfree access both ways. But the negotiations for the Agreement are not getting concluded because of other issues.

To properly utilise the temporary window of opportunity in the global markets that the disruptions in Bangladesh offers and also to strive for a sustainable export growth, our garment industry will have to pull up its socks in the areas of scale and production efficiency. Equally important is that

government should create a proper eco system to attract higher investments through helpful and predictable policy inputs. Periodically tampering with the import policy for raw materials, especially fibres, is a case in point. Both cotton and MMF imports have been facing tariff as well as non-tariff restrictions from time to time and such measures do not inspire large investments in capacity building in our textile sector.

(The author is a textiles expert and a former secretary general at the Confederation of Indian Textile Industry)

**BLS E-SERVICES LIMITED** (CIN: L74999DL2016PLC298207) E-SERVICES

Read, Office: G-48-1, Extension, Mohan Co-operative Indl. Estate. Mathura Road, New Delhi-110044, Delhi, India Corp. Office: Plot No 865, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon-122016, Haryana, India. Tel.: 91-11-45795002, Email: cs@blseservices.com, Website: www.blseservices.com NOTICE OF 8™ (1" Post IPO) ANNUAL GENERAL MEETING

The 8" (1" Post IPO) Annual General Meeting (The AGM) of the members of BLS E-Services Limited, ("the Company") will be held on Tuesday, September 10, 2024 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the business as stated in the Notice of the AGM pursuant to the Companies Act, 2013 and various circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, from time to time. All the Members are hereby informed that:

AND REMOTE E-VOTING

The Annual Report along with Notice of the AGM for financial year ended March 31 2024 and remote e-voting and e-voting at AGM details have been sent in electronic mode on Friday, August 16, 2024 to all the members whose e-mail are registered with RTA and Depositories as on August 09, 2024. The Annual Report along with Notice of the AGM is also available on the website of the Company www.blseservices.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEB (LODR) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 04, 2024 to Tuesday, September 10, 2024 (both days inclusive) for taking on record the members of the Company for the purpose of the AGM of the

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder the Company is pleased to provide Remote e-voting and e-voting facility in the AGM to the members holding shares either in physical form or dematerialized form to cast their vote on the business as set forth in the Notice of the AGM.

The Cut-off date for the purpose of e-voting through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) is Tuesday, September 03, 2024. The remote e-voting period commences on Friday, September 06, 2024 from 09:00 a.m. and ends on Monday, September 09, 2024 at 05:00 p.m. Remote evoting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Monday, September 9, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to

In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but on or before the cut-off date i.e. September 03, 2024, may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining login ID and the password Further, if the Member is already registered with CDSL remote e-voting platform, then he can use existing User ID and Password for casting the vote through remote e-

The manner of e-voting remotely for members holding shares in dematerialized form physical mode and for members who have not registered their email addresses is

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members are requested to read the instructions pertaining to joining the AGM manner of casting vote through remote e-voting, e-voting during the AGM and attending the AGM through VC/OVAM as printed in the Notice of the AGM, carefully.

In case you have any queries or issues regarding the E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or all grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call on toll free no-

The Notice of the AGM is available on the Company's website i.e www.blseservices.com and CDSL's website at www.evotingindia.com

> By Order of the Board of Directors For BLS E-Services Limited

Sameer Kumar Company Secretary & Compliance Office Place: New Delhi ICSI Membership No.: ACS 2216

Date: 16.08.2024 SHASHANK TRADERS LIMITED

CIN :L52110DL1985PLC021076 CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI -110001

Phone:011-43571041; Fax: 011-43571047, Website :www.shashankinfo.in , Email : info@sharrankinfo.in EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

SL No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2024 (Un-Audited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2023 (Un-Audited)	Year ended 31.03,2024 (Audited)
1	Total income from operations	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit / (Loss)for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.61	-2.7	-1.6	-15.85
3	Net Profit / (Loss)for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.61	-2.7	-1.6	-15.85
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.61	-2.7	-1.6	-15.85
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-1.61	-2.7	-1.6	-15.85
6	Equity Share Capital	309.38	309.38	309.38	309.38
7	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	Basic:	-0.05	-0.09	-0.05	-0.51
	Diluted:	-0.05	-0.09	-0.05	-0.51
8	Reserves excluding Revaluation Reserves				-75.87

Note: The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguliments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid. Financial Results is available on the BSE's websites, viz., www.bseindia.com.and on the Company's website www.shashankinfo.in For and on behalf of the Board of Directors of

Shashank Traders Limited

Praveen Jaswant Rai Jain **Managing Director**  EAST COAST RAILWAY CORRIGENDUM-2 to Tender No.:-ETCECONI

> VSKP2024029, Dt. 15.07.2024 Necessary modification has been made in Tender Closing Date & Time of the above AS PUBLISHED NOW TO BE READ AS 28.08.2024, 1200 Hrs. | 18.09.2024, 1200 Hrs. For detailed corrigendum please visit website: www.ireps.gov.in. All other terms & conditions will remain unchanged. Chief Administrative Officer(Con)/

PR-51/CH/24-25

MEGA NIRMAN & INDUSTRIES LIMITED CIN: L70101DL1983PLC015425

Regd. Office: 811-812 Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash place,

Pitampura, Delhi, India, 110034

Website: www.mnil.in Email-ID: secretarial.mnil@gmail.com; Contact No. 011-43590917 NOTICE OF 41" ANNUALGENERALMEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTINGIN FORMATION

NOTICE is hereby given that the 41" Annual General Meeting (AGM) of the members of MEG/ NIRMAN & INDUSTRIES LIMITED ("the Company") is schedule to be held on Tuesday, September 10, 2024 at 11:00 A.M. at Maharaja Banquets, A-1/20A, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi-110063, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM The Notice of AGM, Annual Report for the financial year ended March 31, 2024 and remote e

voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email ID are

registered with the Company/RTA/Depository Participants. The date of completion of email of the In case you have not registered with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2023-24 and login details for e-voting. Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the Company Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd at beetalrta@gmail.com providing folio number, name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back). PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar card) for

Demat Holding: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised DP

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (Rules) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing electronic voting (Remote e-Voting) facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business given in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting. The Company has engaged the services of Nationa

ecurities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility. mbers are further informed that:

e remote e-voting facility shall commence on (09:00 A.M. IST) on 07/09/2024 and ends at (00 P.M. IST) on 09/09/2024. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and Remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry

ghts (for voting through Remote e-Voting as well as Polling Paper at AGM) shall be on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the

pany . of Cut-off date i.e. Tuesday, 03/09/2024; erson to acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after spatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. Tuesday, 03/09/2024, may obtain the User ID and Password by sending a request (along with Name, Folio No. /DP ID & Client ID, as the case may be and shareholding) a www.evoting@nsdl.co.in or to RTA at beetalrta@gmail.com. However, if any person is atready registered with NSDL for Remote e-Voting, he can use his existing User ID a Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his

The facility for voting through Polling Paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by Remote e-Voting shall be able to exercise their right through Polling Paper at the AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their

or contact NSDL on Toll free no.: 1800-22-990;

Password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cutoff date, i.e., Tuesday, 03/09/2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

The said integrated Annual Report is available on the Company's website www.mnil.in and the same is also available on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com, also available for inspection at the registered office of the Company on all working days during the business

For e-Voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of the AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote e-Voting user manual for Shareholders available at the Help section of at www.eyoting.nsdl.com or may contact to Mr. Bhawendra Jha (Senior Manager), M/s. Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi - 110062, through email at beetalrta@gmail.com or on Telephone No.: 011-29961281- 83, Fax No. 011 - 29961284. Mr. Apoorv Srivastava (M NO FCS 12734, COP No. 21063), Practicing Company Secretary, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting/postal ballot process: The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance may be addressed to Ms. Kanika Chawla, Company Secretary

 Netaji Subhash place, Pitampura, Delhi, India, 110034. Email: secretarial.mnil@gmail.com The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within 48 hours of conclusion of the AGM. The results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.mnil.in and on the website of NSDI immediately after the declaration of result by the Chairman or a Director authorized by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges. The results shall be displayed at the Registered Office 811-812 Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash place, Pitampura, Delhi

and Compliance Officer, Mega Nirman & Industries Limited, 811-812 Aggarwal Cyber Plaza-

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 03/09/2024 to Tuesday, 10/09/2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For Mega Nirman & Industries Limited

Date: 16.08.2024 Place: New Delhi

Company Secretary M.No. A50543

Kanika Chawla

{Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government Regional Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 o Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Form No. INC-26

In the matter of **Empowerment Education Private Limited** (CIN: U74899DL2005PTC132224) naving its Registered Office á C/O Mr. Gurjit Singh Monga 12/12B. IInd

Floor, Tilak Nagar, New Delhi-110018

....Applicant Company / Petitioner **NOTICE** is hereby given to the General Public hat the Applicant Company proposes to make an application to under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary General Meeting held on May 06th, 2024 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliveither on the MCA-21 portal www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the

Floor, Tilak Nagar, New Delhi-110018 For & on behalf of **Empowerment** Education Private Limited Sd/-SURINDER SINGH GULATI DIN: 05168751

Date: 17.08.2024 | Place: New Delhi

applicant Company at its Registered Office at

the registered address mentioned below:-

C/O Mr. Gurjit Singh Monga 12/12B, IInd

FORM NO. INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change

of registered office of the Company

from one state to another

Before the Central Government Regional Director, Northern Region B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Om Sai Finlease Private **Limited** having its registered office at

327, Pocket C-8, Sector 8, Rohini, Delhi

Notice is hereby given to the General

Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Annual General Meeting held on Tuesday, the 13th day of August, 2024 to enable the Company to change its registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana."

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the

registered office of the Company may deliver either on the MCA -21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Om Sai Finlease Private Limited Regd. Office: 327, Pocket C-8, Sector 8,

Rohini, Delhi 110085 For and on behalf of the Applicant

Pradeep Kumar

DIN: 00526507

IDFC FIRST

Minutes each

AUTHORISED OFFICER, SAVE HOUSING FINANCE LIMITED

SAVE HOUSING FINANCE LIMITED (Formerly known as New Habitat Housing Finance & Development Limited Office: Unit No.761, 7th Floor, Vegas Mall, Plot No.06, Sector-14, Dwarka, New Delhi-110075, E-mail: info@newhabitat.in, info@savehfl.in Web: www.savehfl.in, Mob: +91-9999694526

E-AUCTION NOTICE

ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002. he undersigned as Authorized Officer of Save Housing Finance Limited (Formerly known as New Habitat Housing Finance & Development Limite has taken over possession of the under-noted properties U/s 13(4) of the SARFAESI Act, 2002. Public at large is informed that -auction (under SARFAESI Act, 2002) of the charged properties in the below S WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS AND WHATEVER THERE IS\* Outstanding Dues for Date & Time o recovery of which Bid Increase Amou E-Auction Property is being sold Rs.11.05.000/-Residential Flat situated on 3rd Floor. 03/09/2024 S/O SH. DURGVIJAY SINGH in multistory building, having its super rom 11.00 A.M Total O/s dues as on Area 41.80 Sq. Meter comprising Khasra to 12 Noon w No.448, colony known as Sharma Colony, Plot No.93, building known as "Kanha Apartment" Village Sarfabed. unlimited W/O .H. DURGVIJAY SINGH extensions o

sand Conditions of the "Auction are as under: (1) E-Auction will be conducted "On Line" through the NBFC/HFC approved service provide india Private Limited at their Website - www.bankeauctions.com Contact person Name Mithlesh Kumar, Mob - 7080804466, Email delhi@c1india.com, Helpline Number- 7291981124.25,26 (2) The intending purchasers / bidders are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS/DD/Transfer/Cheque in Account No. 00000036728174634, in name of the beneficiary SAVE HOUSING FINANCE LIMITED, STATE BANK OF INDIA, SME BRANCH, ASAF ALI ROAD(62203) IFSC Code: SBIN0062203 or by way of demand draft drawn in favour of SAVE HOUSING FINANCE LIMITED drawn on any Nationalized or Scheduled Bank payable at DELHI.. (3) The successful bidder shall deposit 25% of the id amount (including EMD) on the same day of the sale, being knocked down in his/her favour and balance 75% amount of bid amount within 15 rys from the date of sale (4) in case of default in payment of the amount by the successful bidder/auction purchaser within the stipulated time, th ale will be cancelled and the amount already paid (including EMD) will be forfeited (5) The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer ind has the absolute right & discretion to accept or reject any or all offer (S) or adjourn/postpone/cancel\_the E-Auction or withdraw any asset or ortion thereof from the action proceedings at any satge without assigning any reasons whatsoever, (6) The other terms and conditions of the ection are published in the following websites, www.bankeauctions.com and www.savehfl.in

**IDFC FIRST Bank Limited** 

Dated: 17/08/2024, Place: NEW DELHI

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031. Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

NOIDA, Pargana & Tehsil Dadri

District GautamBudh Nagar, U.P.

APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the undersigned being the authorised officer of the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice Dated 24.09.2022 Calling Upon The Borrower, Co-Borrowers And Guarantors 1. Prem Chand, 2. Pradeep Premchand, 3. Anita Shreechand To Repay The Amount Mentioned In The Notice Being Rs. 15,56,722.09/- (Rupees Fifteen Lac Fifty Six Thousand Seven Hundred Twenty Two And Nine Paise Only)As On 24.09.2022, Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Said Demand Notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub - section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 07th day of AUG 2024.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs. 15,56,722.09/- (Rupees Fifteen Lac Fifty Six Thousand Seven Hundred Twenty Two and Nine Paise Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub - section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Description of the Immovable properties.

New Delhi

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF FLAT NO. S-1, SECOND FLOOR, PROP. NO. B-1/82, ADMEASURING 342 SQ. FT., DLF DILSHAD EXTN - 2. REAR LHS PORTION, BRAHMPUR, BHOPORA, LONI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH,

201005, AND, BOUNDED AS PER DEED: EAST: ROAD 40 FEET, WEST: PLOT NO. B-1/97, NORTH: PLOT NO. B-1/81,

**Authorised Officer** IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)

Ramesh Kumar Gupta Anurag Goel Director Resolution Professional DIN: 00161363

3. Previous Year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform the current period For STURDY INDUSTRIES LIMITED (Undergoing CIRP)

Place: New Delhi

Date: 16-08-2024

financialexp.epapr.in

Place:Ghaziabad. Loan Account No:7948799.

SOUTH: PLOT NO. B-1/83

Date:07-08-2024

DIN: 01776424

#### सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

### मैसर्स इंडियन क्लोथिंग लीग के देनदार/व्यक्तिगत गारंटर

	प्रासंगिक विवरण				
1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्रीमती मोहिता इंद्रायन			
2.	देनदार / व्यक्तिगत गारंटर का पता	पताः मकान संख्या बी३, 1801, द वर्ल्ड स्पा, सैक्टर ३०, गुरुवाम, हरियाणा— 122001			
3,	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों / ब्यक्तिगत गारेटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंग तिथि	आईए संख्या 2726/2023 आदेश दिनांक 12.08.2024			
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	नवनीत गुप्ता पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P000361/2017-2018/10619 एएफए वैष: 06.12.2024 तक			
6.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत हैं	मकान सं १५९८, पहली मंजिल, सैक्टर २२-बी, घंडीगव-180022 इमेल : navguptaca@gmail.com			
6.	समाधान प्रोफोशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई-मेल	मकान सं 1598, पहली मंजिल, सैक्टर 22—बी, चंडीगड़—160022 ईमेलः ip.navneetgupta@gmail.com			
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	06 सितंबर 2024			
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	"प्ररूप-बी" वेद लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads			
	Edit Carrier Adams and American Company of the Comp				

**श्रीमती मोहिता इंद्रायन, देनदार / व्यक्तिगत गारंटर** की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है | **श्रीमती मोहिता इंद्रायन** के लेनदारों को इसके द्वाल **06 सितंबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविधि हंख्या ६ में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तृत करने के लिए कहा जाता हैं।

(तहवारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ने **12 अगस्त 2024** को

नेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से

प्रस्तृत करेंगे। दावे के झुठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

समाधान प्रोफेशनल, श्रीमती मोहि इदायन दिनांक : 16.08.2024 पंजीकरण संख्या : IBBIAPA-001/IP-P000361/201 स्थान : चंडीमद 2018/10619

| खुदरा ऋण एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा)ः जी-9, मन्ना ट्रिनिटी AXIS BANK माल, ३एफ–24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड जयपुर एक्सिस बैंक लिमिटेड, तीसर्र मंजिल, गीगाप्लेक्स, एनपीसी–1, टीटीसी एरिया मुगलसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई –400 708, पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल", तीसरी मंजिल समर्थेश्वर मंदिर लॉ गार्डन के सामने, एलिसब्रिज अहमदाबाद -380006

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित। इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक / प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित ऋणदात के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसे 05.09.2024 को **''जहां है, जैसा है'' ''जो है, जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'**' के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि 05.06.2021 तक बकाया 13,85,707 /— (तेरह लाख पचासी हजार सात सौ सात रुपये मात्र) की वसूली की जा सके, जिसमें सुरक्षित ऋणदाता को देय भावी ब्याज तथा लागत शामिल है। ऋणदाता जिसमें **श्रीमती जसोदा देवी कुमावत पत्नी भेरू लाल कुमावत (आवेदक) और भेरू** लाल कुमावत पुत्र भंवर लाल कुमावत (सह–आवेदक) ऋण संख्या PHR024103154882 में कृपया आवश्यक विवरण के लिए संलग्न नीलामी अनुसूची देखें:--

ज्ञात बाधाएँ (यदि कोई हो)	नहीं
आरक्षित मूल्य (रुपये में)	रु.16,59,125 /— (सोलह लाख उनसठ हजार एक सौ पच्चीस रुपये मात्र)
बयाना राशि जमा (रुपये में)	रु.1,65,912.5/ (एक लाख पैंसट हजार नौ सौ बारह और पांच पैसे मात्र) 'एक्सिस बैंक लिमिटेड'के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से जयपुर में देय
वृद्धिशील राशि की बोली लगाएं	रु. 10,000 / (रु. दस हजार मात्र)
ईएमडी के साथ बोलियां / निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान	0409.2024 तक शाम 05:00 बजे तक एक्सिस हाउस, जी—9 महिमा ट्रिनिटी मॉल ,3 एफ—24 स्वेज फार्म, न्यू सांगनेर रोड, जयपुर राजस्थान और कृपया श्री गोरधन लोहार को संबोधित करें
सार्वजनिक एवं नीलामी के लिए दिनांक, समय और स्थान	05092024 को, सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच। वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ।
	क असामत एक्सटशन के साथ। ई—नीलामी निवेदा दस्तावेज जिस में ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा आदि शामिल हैं, ऊपर बताए अनुसार सेवा प्रदाता की वेब साइट पर उपलब्ध हैं।

एच नं. 16 / 2660 (पश्चिम भाग) आराजी नं. 2660 राजस्व ग्राम पांसल भीलवाड़ा। **सीमाएं: पूर्वः उक्त संपत्ति का शेष** 

भाग, पश्चिमः प्लॉट नं. 17, उत्तरः प्लॉट नं. 05, दक्षिणः रोड। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.axisbank.com/auction.retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गएँ लिंक को देखें। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेबपोर्टल

https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए, इच्छुक बोलीदाता श्री गोरधन लोहार , मोबाइल नंबर 9828586678 बैंक व अधिकृत अधिकारी कार्यालय समय के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4:00 बजे तक से संपर्क कर सकते हैं। दिनांकः 16-08-.2024, हस्ता/-, (प्राधिकृत अधिकारी) एक्सिस बैंक लिमिटेड। स्थानः भीलवाडा, राजस्थान

### एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(ए शेड्युल्ड कमशियल बैंक ) रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:136911RJ1996PLC011381)

### परिशिष्ट 🛚 (देखें नियम ८ (१) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ( ए शेड्युल्ड कमर्शियल बैंक ) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की थारा 13 प्रतिभृतिहित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 का संपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2024 को संदर्भ संख्या CB/SAR/13-2/SME/APR-2024/03 ऋण खाता संख्या: 9001120113223731 निर्गीमत की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार **मैसर्स चांदनी फुटवीयर जरिए प्रोपराइटर श्री** आकाश गर्ग ( ऋणी ), श्री आकाश गर्ग पुत्र श्री मन मोहन गर्ग ( सह-ऋणी ), श्री मन मोहन गर्ग पुत्र श्री सुगन चन्द ( सह-ऋणी ), श्रीमती राज रानी पत्नी श्री मन मोहन गर्ग ( सह-ऋणी/बंधककर्ता ) के लिए ऋण खाता संख्या 9001120113223731 रूपये 1,15,77,711/- ( रूपये एक करोड़ पंदह लाख सतहत्तर हजार सात सी ग्यारह मात्र ) दिनांक 16 अग्रैल 2024 तक कुल देव ( जिसमे शामिल मुलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क ) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य 👣 ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर सकाने के 🚾 कहा

ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार के वह राशि लौंटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्त जमानतदार एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति यों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 14 अगस्त 2024 को अधिग्रहण कर लिया है ऋणियों का थ्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम क धारा 13 की उपधारा ( 8 ) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार के लिए ऋण खाता संख्या 9001120113223731 रूपये 1,20,32,706 /- ( रूपये एक करोड़ बीस लाख बत्तीस हजार सात सौ छ: मात्र ) दिनांक 03 अगस्त 2024 तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

### स्थावर सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, एमसीएफ/मकान टेक्स खाता/युनिट नं. 169/157, स्थित बार्ड नं. 06, ब्रह्मण वाडा, बल्लभगड्, जिला फरीदाबाद, हरियाणा **कुल क्षेत्रफल 301.00 वर्ग गज**, जो कि श्रीमती राजरानी पत्नी श्री मन मोहन गर्ग के स्वापित्व में हैं।

सम्पत्ति की चारों सीमाएँ निम्न हैं -पूर्व : रोड,

रथान : करीदाबाद, हरियाणा

पश्चिम : ग्यानचन्द्र शर्मा, सुभाध शर्मा, रघवीर दयाल शर्मा की सम्पत्ति

उत्तर : तस्या तायल की सम्पत्ति

दक्षिण : रिशि गोयल की सम्पत्ति प्राधिकृत अधिकारी

एयू रमील फाइनेंस बेंक लिमिटेड

रिटज मकेन्टाइल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 1305, 13वां तल, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (भारत) CIN: L52110DL1985PLC019805, फोन नं.: 011-20887121/20887122

	and see www.ritzmercantile.com, \$-40%; ritzmercantilenmited@gmail.com					
	30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय					
	परिणामों का विवरण (१				रु. हजार में)	
	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	
		30.6.2024	31.3.2024	30.6.2023	31.03.2024	
			अंकेक्षित			
	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	41.58	421.56	131.89	183.53	
	कर से बाद साधारण क्रियाकलापों से शुद्ध	41.58	379.59	-33.64	141.56	
	लाभ/(हानि)					
	कर से बाद साधारण क्रियाकलापों से शुद्ध	325.58	534.29	-33.64	296.26	
	लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)					
	इक्विटी शेयर पूंजी	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	
	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई	10196.79	10155.21	9781.30	10155.21	
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)					
	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व)					
	(सम मूल्य रु. 10/- प्रति)					
	मूल	0.04	0.36	- 0.03	0.14	
	तरल	0.04	0.36	- 0.03	0.14	
	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद)					
	(सम मूल्य रु. 10/- प्रति)					
1	मल	0.31	0.51	- 0.03	0.28	

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 14.11.2024

. उपरोक्त परिणामों को 14.08.2024 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा तथा अनुमोदन किया गया। सांविधिक ऑडिटर ने उसकी सीमित समीक्षा की है।

0.31

0.51

- 2. 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान निवेशक की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई/तिमाही अवधि के आरंभ अथवा अंत में कोई शिकायत लम्बित नहीं थी।
- 3. कम्पनी केवल एक ही खंड में प्रचालन करती है।
- 4. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत, पुनर्प्रसारित, पुर्नसमूंहीकृत किये गये हैं।

रिट्ज मर्केन्टाइल लि. के लिये गर्वित सिंघवी पूर्ण-कालिक निदेशक DIN: 00597757

फोन नं.: 9811628638

- 0.03

0.28

(1) IDBI BANK

आईडीवीआई बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई टॉवर, डबल्पटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड मुंबई – ४००००५, CIN: L65190MH2004GOI148838

#### निविदा सूचना

मार्केटिंग,लीड जनरेशन, प्रचार गतिविधि,संपर्क बिंदु सत्यापन गतिविधियाँ और संबंधित सहायता कार्य सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग वेंडर (ओएसवी) के रूप में चयन प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफ़पी)

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड अपनी कार्यालयों/केन्द्रों/शाखाओं के लिए मार्केटिंग, लीड जनरेशन, प्रचार गतिविधि संपर्क बिंद सत्यापन गतिविधियाँ और संबंधित सहायता कार्य सेवाओं सेवाएँ प्रदान करने हेत् पात्र आउटसोसिँग वेंडरों (ओएसवी) से बोली आमंत्रित करता है. इच्छुक वेंडर आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट <u>www.idbibank.in</u> (नोटिस & टेंडर) से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं. सभी बोलियाँ अनिवार्य रूप से मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएँ तथा लिफाफे के शीर्ष पर बड़े अक्षरों में "मार्केटिंग,लीड जनरेशन, प्रचार गतिविधि,संपर्क बिंदु सत्यापन गतिविधियाँ और संबंधित सहायता कार्य सेवाओं के लिए ओएसवी के रूप में सुचीबद्धता के लिए अनुरोध" लिखा जाए. यह 0९ सितंबर 2024 तक (शाम 3.00 बजे तक) "महा प्रबन्धक-एन एस एम,खुदरा देनदारियाँ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई टॉवर, १३ वीं मंज़िल, 'डी' विंग, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-४००००५" के पास अवश्य पहुँच जाना चाहिए.

दिनांक : १७.०८.२०२४ हस्ताक्षरित/-स्थान : मुंबई प्राधिकृत अधिकारी

### बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड

(सीआईएन: L74999DL2016PLC298207) पंजीकृत कार्यालयः जी-4बी-1, एक्सर्टेशन मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मधुरा मार्ग, नई दिल्ली – 110044, मारत

कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 865, उद्योग विहार, फेज v, गुडगाव-122016, हरियाणा, भारत, फोनः 91-11-45795002, ईमेलः cs@blseservices.com, वेबसाइटः www.blseservices.com

#### 8वीं (आईपीओ के बाद पहली) वार्षिक आम बैठक और रिमोट ई-वोटिंग का नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि:

बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 8वीं (आईपीओ के बाद पहली) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 को दोपहर 03:00 बजे (भारतीय समयानसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल मध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') सामान्य और विशेष व्यवसाय करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एजीएम के नोटिस और कॉपॉरेंट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुरूप आयोजित की जाएगी। सभी सदस्यों को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि:-

- 1. 31 मार्च 2024 को समाप्त विसीय वर्ष के लिए एजीएम के नोटिस और एजीएम में रिमोट ई-मोटिंग और ई-वोटिंग विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक गोंड में उन सभी सदस्यों को भेज दिये गये हैं, जिनके ई-मेल 9 अगस्त, 2024 तक आरटीए और डिपॉजिटरी के लाथ पंजीकृत किए जा चुके हैं। वार्षिक रिपोर्ट के लाथ एजीएम के नोटिर्स कंपनी की वेबसाइट www.blseservices.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमश www.bseindia.com, www.nseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर भी उपलब्ध है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के सह पवित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 42 के अनुरूप, हम आपको एतदद्वारा सूचित करते हैं कि एजीएम के उदेश्य से और कंपनी के सदस्यों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 04 सितंबर, 2024 से मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल होंगे) तक निष्क्रिय कर दिये जाएंगे।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके सहपठित निर्मित नियमों के अनुरूप, कंपनी को यह घोषित करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि वह भौतिक रूप में डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयरधारक सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वें एजीएन के नोटिस में निर्दिष्ट किए अनुसार अपने वोट
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेंज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की ई-वोटिंग के प्रयोजन के लिए अंतिम तिथि **मंगलवार, 03 सितंबर,** 2024 है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 06 सितंबर 2024 प्रात: 09:00 बजे से शुरू होकर सोमवार, 09 सितंबर, 2024 को सांग्रः 05:00 बजे समाप्त कर दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति सोमवार, 09 सितंबर, 2024 को सांय: 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तब सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि किसी मामले में, कोई सदस्य एजीएम के नोटिस भेजने के बाद लेकिन कर-ऑफ तिथि यानी 03 सितंबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बनता है, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर एक ईमेल के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कथित सदस्य पहले से ही सीडीएसएल रिमोट ई-बोटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। डीमैटरियलाइज्ड. भौतिक रूप में वे शेयर धारक सदस्य और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल यता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-बोटिंग का तरीका एजीएम के नोटिस में
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

प्रदान किया गया है।

- सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम में शामिल होने के लिए, रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से वोट डालने के तरीके, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी / ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, जो एजीएम के नोटिस में छापे गये हैं।
- यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों का उल्लेख श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई - 400013 या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल पर मेज दें या टॉल-फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क करें।
- एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट यानी www.blseservices.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

द्वारा निदेशक मंडल के आदेश से कृते बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड हस्ता./-समीर कुमार

स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी दिनाकः 16.08.2024 आईसीएसआई सदस्यता संख्याः एसीएस 32216 आईबीसी. 2016 के तहत ई नीलामी बिक्री सचना आईबीसी, 2016 के तहत तीसरी बिक्री सचना

आरजी इंफ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में), सीआईएन: U70101DL2005PTC135052 पंजीकृत कार्यालय : जी-02, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर एसयू एलएससी बी-ब्लॉक आरजी सिटी सेंटर, लॉरेंस रोड, दिल्ली-110035। परिसमापक कार्यालयः 1670/120, शांति नगर, त्रि-नगर, दिल्ली -110035

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, न्यायालय–II, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा स्टैंड-अलोन आधार पर मेसर्स आरजी इंफ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की संपत्ति की बिक्री।बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

विवरण	ई-नीलामी की तिथि एवं समय तिथि :	आरक्षित मूल्य ( रु.)	ईएमडी राशि तथा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	संविदा वृद्धि मूल्य
आरजी सिटी सेंटर, लॉरेंस रोड, दिल्ली-110035 पर कार्यालय स्थान तथा संयन्त्र एवं मशीनरी  यूनिट नं. 101, माप सुपर एरिया 431.07 वर्ग मीटर तथा कवर्ड एरिया 301.75 वर्ग मीटर, कार्यालय टेबल (पुरानी)-2 नग, डक्टेबल यूनिट (पुराना)-2 नग तथा लकड़ी की अलमारी (पुरानी)-1 नग	06.09.2024 समय : 11.30 बजे पूर्वा. से 01.30 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)	रु. 4,76,20,100/– (रुपये चार करोड़ छिहत्तर लाख बीस हजार एक सौ मात्र)	रु. 47,62,010/- (रुपये सैंतालीस लाख बासठ हजार दस मात्र) तिथि 04.09.2024	रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र)

निरीक्षण की तिथि: परिसमापक को पूर्व सूचना के साथ 02.09.2024 को 5.00 बजे अप. तक। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि: 04.09.2023 शाम 5.00 बजे तक।

प्रस्तावित नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं: ∖ई–नीलामी 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', 'जैसा है वैसा आधार पर' और 'बिना संसाधन के आधार पर'

📭 योजित की जाएगी क्योंकि ऐसी बिक्री अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड tps://ncltauction.auctiontiger.net) के माध्यम से किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के रिसमापक को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी। संपूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत

शर्तों के साथ बोली प्रपत्र https://ncltauction.auctiontiger.net की वेबसाइट रं लोड किया जा सकता है। संपर्कः श्री प्रवीण +91- 9722778828 पर, ई-मेल the r@auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net . उपरोक्त इंजीलामा प्रक्रिया दस्तावेज में बेची जाने वाली पहचान की गई संपत्तियों का विवरण भी दिया गया है परिसमापक को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थिगित/स्थिगित करने/रद्द करने या किसी भी चरण में किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।

बिक्री दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगी। राकेश कुमार जैन, परिसमापक दिनांक: 17.08.2024 पंजीकरण : IBBI/IBBI/IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068 स्थानः नई दिल्ली ईमेलः rginfrabuild@gmail.com

#### प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2018 के विनियम 6 के अधीन]

*	थी सी प्रॉपर्टीज् प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी में) के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण		
<ol> <li>कार्पो रेट देनदार का नाम श्री सी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी)</li> </ol>			
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	14 जुलाई 2010	
3.	प्राचिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत हैं	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (दिल्ली) कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के तहत	
4,	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70200DL2010PTC205856	
5.	कार्पोरंट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं 14, ग्राउंड फ्लोर, युल पहलाद पुर, डीडीए एमआईजी सूरज अपार्टमेंट, नई दिल्ली –110044 कॉर्पोरेट कार्यालयः एच–10, सैक्टर 98, नोएडा	

चत्तरप्रदेश-201304, भारत कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध 09 अगस्त 2024, माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित अक्षमता आरंभन तिथि। आदेश की तिथि है (14 अगस्त 2024, माननीय एनसीएलएटी का आदेश है जिसके अनुसार नीचे हरलाक्षरकर्ता इस मामले में आईआरपी यन गया है)

ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 05 फरवरी, 2025 समापन की पूर्वानुमानित तिथि अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में देवेंद्र उमराव कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल | पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-2020/12640 का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर एएफए : 07 नवंबर, 2024 तक वैध अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और पता: 94 डी, पॉकेंट--एफ, मयुर विहार ई--मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है फेंज 2, नई दिल्ली-110091 ईमेल : devumraoibc@gmail.com

पताः जीएफ-14, द कोरेंधम, सैक्टर-62, . अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का. पत्राचार हेत् प्रयुक्त, पता और ई—मेल नोएडा (यूपी)-- 201301 ईमेल : cirp.threecproperties@gmail.com 28 अगस्त 2024 दावा प्रस्तुत करने हेतु अतिम तिथि अंतरियसमधान प्रोफेशनल हाराधारा २१ की रियल एस्टेट परियोजना "लोटस आइल" ४ उप–धारा (६क) के क्लीज (ख) के तहत .. के अंतर्गत आवंटी

अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के 1. श्री शाहरू माहे श्वरी रूप में कार्य करने हेत् विहिनत ऋण शोध असमता | चंजी: सं : IBBINPA-002/IP-N01046/2021-2022/13625 प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक लेगी के लिए तीन नाम) 2. श्री अरविंद मित्तल पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01358/2018-2019/12081 3. श्री बिनोद कुमार सिंह पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02688/2022-2023/14108 (उपर्युक्त पेशेवरों की प्रोफाइल www.ibbl.gov.in पर उपलब्ध हैं)

(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण https://ibbi.gov.in/ips-register/registered-ips यहां सपलबाहै: (ख) मारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई)। 7वीं मंजिल, मयुर भवन, शंकर मार्केट, कर्नोट सर्कस, नई दिल्ली-110001 तदहारा सुक्रमा दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने **09 अगस्त 2024** को (14 अगस्त 2024 माननीय एनसीएलएटी का आदेश है जिसके अनुसार नीचे हस्ताधरकर्ता इस मामले में आईआरपी बन गया है) श्री सी प्रॉपर्टीज प्राइबेट लिमिटेड की कॉपीरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है । थी सी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेंड के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण 28 अगस्त 2024 को अथवा पूर अंतरिन समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्षवर्णित प्रतेपर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है ।

(क) वेबलिंगः https://lbbi.gov.in/home/downloads

<sup>[4]</sup> (क) संबंधित प्रपन्न और

वित्तीय लेंद्र तरों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक सहवनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य समी लेनदार का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं । । संबंधित 🖟 य ऋणदाता, जैसा कि प्रविद्धि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध हैं , वह फॉर्म सीए में रियल हत वर्ग आवंटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविध्टि संख्या 13 के सामने लयापन पेशेवरों में से अपने अधिकृत प्रतिनिधि की पसंद को इंगित करेगा । वे के फर्जी 🖊 थवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति वं उनीय होगी । देवेंद्र उमराव दिनांक: 5.08.2024 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, थ्री सी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-2020/12640

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.12.2023 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.06.2024

#### महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषद महाबळेश्वर, जि. सातारा



फोन नं. (०२१६८) २६०२२०. e-Mail: giristhan.mmc1864@gmail.com वशी क्र. २४/१/२०२४-२०२५, दिनांक १६/०८/२०२४

#### ई-निविदा सूचना

महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषद हृद्दीतील विविध विकास कामांच्या ई-निविदा सचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या सिंकेतस्थळावर दिनांक १७/०८/२०२४ पासन प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. (स्वाक्षरी/-)

> - श्री. योगेश पाटील, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषद. महाबळेश्वर

#### इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L7490DL1981PLC011425 4237/11, 2रा तल, नरेंद्र भवन, 1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 वेबसाईटः www.indogulfind.com, ईमेलः rj.headoffice@gmail.com 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1)(बी)

			(रु. लाखा म)
क्रम सं.	विवारण	समाप्त तिमाही 30.6.2024 ( अनंकेक्षित )	समाप्त तिमाही 30.6.2023 ( अनंकेक्षित )
1.	प्रचालनों से कुल आय	6287.17	5255.62
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा अपवादित मदों से पूर्व)	381.93	191.32
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	381.93	191.32
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	273.42	138.10
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय (अवधि के लिये (लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद) से शमिल	273.42	138.10
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	95.67	95.67
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है)	649.37	375.95
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का)(तिमाही आंकड़ों के लिये वार्षिकीकृत नहीं)		
	मूल	2.86	1.44
	तरल	2.86	1.44

उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.indogulfind.com पर उपलब्ध है। कंपनी के स्टैंडएलॉन परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 द्वारा यथा-संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) के अंतर्गत अधिसुचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है। 1 अप्रैल, 2015 की संक्रमण तिथि के साथ 1 अप्रैल, 2016 से कम्पनी ने इंड एएस 105 अपनाई है एवं तदनुसार इन परिणामों (31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त अवधि सहित) को इंड एएस 101 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से इण्डो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड

राजेश जैन निदेशक DIN: 01200520

## फॉर्म-जी अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण पाल इंफ्रास्ट्रक्बर और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की पाल ग्रीन परिवोजना, सेक्टर-76, फरीदाबाद में

		क विवरण
1.	पैन /सीआईएन /एलएलपी संख्या के साथ कॉपीरेट पैनवार का नाम	पाल इंफ्रास्ट्रक्यर और डेक्लपर्स प्राइवेट लिमिटेड - पाल ग्रीन प्रोजैक्ट संआरंपन : U701090L2006PTC149560 पेन: AADCP9279L
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	बी-45, शक्ति आपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिपी, नई दिल्ली, विल्ली, भारत, 110085
3.	वेषसाइट का कुआरएस	https://ibbi.gov.irv/en/claims/claim-process/ U70109DL2006PTC149560
4	उस स्थान का विवरण जहां अचल संपत्तियों का बहुमत स्थित है	सैक्टर-78, पारीवबाद, हरियाणा-121002
5.	कापेरिट देनवार के मुख्य उत्पादी/सेवाओं की स्थापित समता	कुत स्वीट एरिया: - 2.96 एकड़ एसएफटी-4,30,000 (चार लाख तीस हजार मात्र) 6 टावर (जी+17), 432 फ्लैट 2वीएसके (1116 SFT) फ्लैट- 288 3वीएसके (1530 SFT) फ्लैट- 144 स्वीकृत योजना के अनुसार EWS फ्लैट
6.	पिछले विक्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य जन्मदो∕सेवाओं की मात्रा और मूल्य	सितंबर 2019 में सीअवर्डआरपी शुरू होने के बाद से, कंपने ने कोई करोबार नहीं किया है। सिलंबर 2019 में सीआईआरपी शुरू होने के बाद से, कंपनी ने कोई कारोबार नहीं किया है।
7.:	कर्मचारियों /वर्कमैन की संख्या	शुन्य
8.	दो पर्पों के ऑतम उपलब्ध विशोध विवरणी (अनुसूचियों के साथ), लेनवारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं हेतु प्रात्मिक विधियां सहित अधिक विवरण गर्हा उपलब्ध है:-	
90	संहिता की पारा 25(2)(एष) के तहत समापान आमेरकों के लिए पानता पही कुआरएल पर उपनब्ध है:	https://ibbi.gov.in/en/claims/inner- process/U70109DL2006PTC149560 UF \$9rt-palgreen.ibc@gmail.com
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	02-09-2024
11.	संभावित संकल्प आवेदको की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	07-09-2024
12.	अनंदिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंदिम दिथि	12-09-2024
13.	संभावित समाधान आवेदको की अतिम मूर्ची जारी करने की तारीख	17-09-2024
14.	संभावित समाधान आवेदको को सूचना जापन, मूल्यांकन मेड्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तारीख	22-09-2024
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22-10-2024
16.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने में लिए ईमेल आईबी प्रक्रिया	palgreen.ibc@gmail.com

64, ओखला एस्टेट, पेज-111, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली, 110020

ई-मान palgreen.ibo@gmail.com

### MUTHOOT FINCORP LTD. सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहने जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाया नहीं गया है उनकी नीलामी 26.08.2024.8.27.08.2024 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी। 2446000108, 2446000129, 2446000131, 2446000132, 2446000132, 2446000142, 2446000142, 2446000149, 2446000151, 2446000320, 244600324, 244600324, 244600359, 244600359, 244600359, 244600457, 2446000149, 2 244600480, 244600481, 244600487, 244600487, 244600678, 244600550, 244600550, 244600550, 244600550, 244600550, 244600550, 244600550, 244600678, 244600550, 244244600745, 244600746, 244600752, 244600787, 244600787, 244600787, 244600787, 244600858, 281400433, 281400434, 281400469, 281400529, 281400529, 281400577, 281400623, F23558, KHAJURI KHAS-NEW DELHI: 145400261, 145400265, 145400277, 145400277, 145400290, 145400307, 145400308, 145400319, 145400319, 145400381, 145400381, 145400403, 145400403, 145400469, 1 145400415, 145400434, 145400434, 145400434, 145400434, 145400434, 145400434, 145400434, 145400512, 145400636, 1 145400858, 145400860, F11332: KHUREJI KHAS: 2092000024, 2092000044, 2092000044, 2092000044, 2092000052, 2092000052, 2092000099, 2092000102, 2092000104, 2092000104, 2092000144, 2092000144, 2092000142, 2092000142, 2092000142, 2092000142, 2092000142, 2092000142, 2092000142, 2092000142, 2092000142, 2092000142, 2092000144 2092000168, 2092000181, 2092000192, 209200073, 209200255, 209200299, 209200307, 209200346, 2092003415, 209200415, 209200447, 209200447, 209200451, 20920209200527, 209200561, 209200561, 209200570, 209200595, F14535, F14706, F15454, F15493, F15565. KRISHNA NAGAR: 0907000001, 0907000001, 0907000003, 090700003, 0907000043, 0907000043, 0907000047, 0907000044, 0907000054, 0907000056, 0907000056, 0907000005, 0907000005, 0907000003, 0907000004, 0907000004, 0907000004, 0907000004, 0907000005, 09070000907000084, 0907000085, 0907000209, 0907000225, 090700145, 090700148, 090700149, 090700156, 090700186, 090700189, 090700189, 090700217, 090700225, 090700225, 090700235, 090700235, 090700251, 090700269, 090700269, 090700282, 090700189, 09070090700285, 090700290, 090700299, 090700308, 090700337, 090700358, 090700358, 090700358, 090700368, 090700390, 090700400, 090700403, 090700401, F10204, F10233, F10425, F13205, F15990, GL/KRNG/47. Auction Date: 27.08.2024 - MANDAWALI-NEW DELHI: 199400245, 199400245, 199400346, 1994003 210900251, 210900267; 210900267; 210900307, 210900309, 210900309, 210900325, 210900325, 210900325, 210900352, 210900353, MAYUR VIHAR PHASE 3: 0628000002, 0628000016, 210900450, 210900450, 210900469, 210900469, 210900469, 210900533, MAYUR VIHAR PHASE 3: 06280000016, 210900369, 210900469 0628000025, 0628000028, 0628000035, 0628000046, 0628000047, 0628000068, 0628000069, 0628000073, 0628000015, 0628000141, 0628000141, 0628000141, 0628000152, 0628000152, 0628000156, 0628000161, 06280628000174, 062800359, 062800371, 062800405, 062800424, 062800424, 062800431, 062800431, 062800501, 062800501, 062800501, 062800609, 06280060062800730, 062800744, 062800748, 062800747, 062800813, 062800845, 062800905, 062800920, 062800920, 062800949, F21601, F28503, F33036, MAYUR VIHAR PHASE-II: 411400147, 411400163, 411400176 411400193, 411400219, 411400245, 411400245, 411400275, 411400275, 411400312, 411400312, 411400323, 411400323, 411400367, 411400365, 411400367, 2333000496, 2333000694, 2333000604, 2333000612, 2333000612, 2333000641, 2333000642, 2333000641, 233000641, 233000641, 233000641, 233000641, 233000641, 233000641, 233000641, 2330000641, 2330000641, 2330000641, 23

233300380, 233300384, 233300388, 233300388, 233300389, 233300390, 233300402, 233300402, 233300437, 233300438, 233300438, 233300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 23300388, 233000 200900273, 200900308, 200900319, 200900320, 200900353, 200900357, 200900357, 200900413, 200900440, 200900440, 200900472, 200900474, 200900474, 200900494, 200900501, 200900501, 200900508, HAR: 400600041, 400600054, 400600075, 400600075, 400600108, 400600120, 400600 2045000558, 2045000568, 2045000567, 2045000567, 2045000580, 2045000580, 2045000625, 2045000625, 2045000668, 2045000668, 2045000668, 2045000679, 2045000679, 2045000719, 20450000719, 2045000742, 2045000751, 2045000752, 2045000755, 2045000763, 2045000769, 2045000769, 2045000789, 2045000789, 2045000789, 2045000789, 2045000789, 2045000821, 2045000821, 2045000822, 2045000824, 2045000837, 2045000838, 2045000789, 20450000789, 20450000789, 20450000789, 20450000789, 20450000789, 20450000789, 20450000204500206, 204500213, 204500243, 204500246, 204500267, F18152, F5640, F5641, GL/MSGL/RTSN/111, SHAKARPUR: 0742000339, 0742000344, 0742000344, 0742000355, 0742000355, 0742000357, 0742000379, 0742000379, 0742000339, 0742000344, 0742000346, 204500246, 2045 0742000409, 0742000410, 0742000434, 0742000434, 0742000437, 0742000480, 074200061, 074200098, 074200102, 074200103, 074200165, 074200165, 074200165, F19955, F21318, F21792, SONIA VIHAR-DELHI: 315600027, 074200109, 074200161, 0742315600053, 315600083, 315600113, 315600370, 315600305, 315600305, 315600314, 315600314, 315600340, 315600340, 315600340, 315600389, 315600389, 315600420, 315600420, 315600420, 315600420, 315600340, 3 315600453, 315600457, 315600456, 315600463, 315600463, 315600496, 315600496, 315600504, 315600504, 315600537, 315600537, 315600537, 315600537, 315600545, 31560054, 31560054, 31560054, 31560054, 31560054, 31560054315600687, 315600694, 315600697, 315600698, 315600638, 315600736, 315600736, 315600736, 315600787, 315600787, 315600800, 315600807, 315600820, 315600823, 315600835, 315600835, 315600838, 315600842, 315600842, 315600842, 315600800, 315600807, 3 214800263, 214800264; 214800267, 214800282, 214800282, 214800381, 214800383, 214800381, 214800381, 214800502, 214800503, F16545, F16563, F16773 VIVEK VIHAR: 211200328, 211200328, 211200328, 211200369, 211200369, 211200369, 211200412, 211200418, 211200485, 211200485, 211200489, 211200503, 211200509, 211200517, 211200518, 21120051 211200570, 211200583, 211200605, 211200605, 211200625, 18500224, 118500226, 118500229, 118500229, 118500229, 118500238, 118500240, 118500353, 11

2333000656, 2333000667, 2333000676, 2333000710, 2333000710, 2333000721, 2333000721, 2333000721, 2333000722, 233300229, 233300229, 233300229, 233300231, 23300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 233300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 23300231, 233300236, 233300263, 233300263, 233300297, 233300297, 233300297, 233300298, 233300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 23300376, 2330037

नीलामी अपनी -अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाईतो नीलामी 05.09.2024 को सुबह 10.00 बजे Mulhoot FinCorp Ltd., First Floor, DDA Complex, 102. Mayor Vihar Phase 3, Opposite मुत्तूट फ़िनकॉर्प लिमिटेड Punjab National Bank, Delhi - 110096, पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फ़ोटो पहचान - पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा ।

www.readwhere.com

118500565, 118500573, 118500579, 118500599, 118500602, 118500610, 118500611, 118500612, 118500614, 118500619, 118500624, F12472, F15831, F19205, F19234, F19274, F19300, F19302, F19369,